

प्रसार भारती
भारत का लोक सेवा प्रसारक
दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ
24x7 (Fix Point Chart)
निश्चित बिन्दु तालिका
(दिनांक 03.05.2018 से प्रभावी)

दिन/ समय	06.00 AM - 06.30 AM	06.30 AM - 07.00 AM	07.00 AM - 07.30 AM	07.30 AM - 08.00 AM	08.00 AM - 09.00 AM	09.00 AM - 09.30 AM	09.30 AM - 10.00 AM
सोमवार	भक्ति संगीत	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	अस्तित्व एक पहचान (NREP)	नमस्ते यू.पी (सजीव)	सिने मैलोडी	
मंगलवार	भक्ति संगीत	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	अस्तित्व एक पहचान (NREP)	नमस्ते यू.पी (सजीव)	स्वाद	कृषि दर्शन
बुधवार	पी.जी.एफ इलाहाबाद	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	अस्तित्व एक पहचान (NREP)	नमस्ते यू.पी (सजीव)	ग्रामोदय	कृषि दर्शन
बृहस्पति वार	पी.जी.एफ गोरखपुर	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	अस्तित्व एक पहचान (NREP)	नमस्ते यू.पी (सजीव)	जो है जैसा क्यों है वैसा (विज्ञान प्रसार)	कृषि दर्शन
शुक्रवार	पी.जी.एफ बरेली	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	अस्तित्व एक पहचान (NREP)	नमस्ते यू.पी (सजीव)	ग्रामोदय	कृषि दर्शन
शनिवार	पी.जी.एफ वाराणसी	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	यूपी दर्शन	वंस मोर	स्वाद	कृषि दर्शन
रविवार	भक्ति संगीत	स्वास्थ्य संजीवनी (इन हाउस)	कमी. कार्य. (सेट - 3) 1/100	यूपी दर्शन	नमस्ते यू.पी (सजीव)	रंग फिल्मी	

दिन/समय	10.00 AM - 10.30 AM	10.30 AM - 11.00 AM	11.00 AM - 11.05 AM	11.05 AM - 12.00 PM	12.00 PM - 12.02 PM	12.02 PM - 12.30 PM	12.30 PM - 12.35 PM	12.35 PM - 01.00 PM	01.00 PM - 02.00 PM	02.00 PM - 02.30 PM	02.30 PM - 03.00 PM	
सोमवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	वंस मोर	ग्राफिक समाचार	मैं कुछ भी कर सकती हूँ (NREP)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	अनुगूज (NREP)	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	आखिर क्यों (NREP)	
मंगलवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	डीडी यू.पी आपके साथ	ग्राफिक समाचार	गाँव इंडिया (N.R.E.P)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	हम है ना (NREP)	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा	
बुधवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	चन्द्रमुखी	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (प्रायो. कार्य.)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	कृष्णकली (NREP)	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा	
बृहस्पतिवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	द कमाण्ड फोर्स (NREP)	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (प्रायो. कार्य.)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	गीतांजलि (NREP)	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा	
शुक्रवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	द कमाण्ड फोर्स (NREP)	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (प्रायो. कार्य.)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	साक्षात्कार	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा	
शनिवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	समसामयिक चर्चा (सजीव)	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (प्रायो. कार्य.)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	यू.पी दर्शन	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा	
रविवार	समाचार	स्वास्थ्य संजीवनी	5 मिनट 15 खबरे	विज्ञान से ध्यान की ओर	अलबेले हाथों का हुनर	ग्राफिक समाचार	मैं कुछ भी कर सकती हूँ (NREP)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	यू.पी दर्शन	आइये चले उत्तराखण्ड	समाचार	विविधा

दिन/समय	03.00 PM - 03.05 PM	03.05 PM - 04.00 PM	04.00 PM - 04.05 PM	04.05 PM - 05.00 PM	05.00 PM - 05.05 PM	05.05 PM - 05.30 PM	05.30 PM - 06.00 PM	06.00 PM - 06.05 PM	06.05 PM - 06.30 PM	
सोमवार	वंस मोर	परिवार समय		ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	स्वाद	कृषि दर्शन	ग्राफिक समाचार	गाँव इंडिया (N.R.E.P)
मंगलवार	वंस मोर	रंग फिल्मी		ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	ग्रामोदय	कृषि दर्शन	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (सजीव)
बुधवार	वंस मोर	जीते रहो (1,3,5)/ एक भारत श्रेष्ठ भारत (2,4)	पत्रों के संग चित्रहार के रंग	ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	जो है जैसा क्यों है वैसा (विज्ञान प्रसार)	कृषि दर्शन	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (सजीव)
बृहस्पतिवार	वंस मोर	सिने मैलोडी		ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	ग्रामोदय	कृषि दर्शन	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (सजीव)
शुक्रवार	वंस मोर	रंग फिल्मी		ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	स्वाद	कृषि दर्शन	ग्राफिक समाचार	मिशन हेल्थ (सजीव)
शनिवार	हिन्दी फीचर फिल्म						स्वच्छ भारत	ग्राफिक समाचार	मैं कुछ भी कर सकती हूँ (NREP)	
रविवार	वंस मोर	सिने मैलोडी		ग्राफिक समाचार	नमस्ते यू.पी (पुनः प्रसारण)	फटाफट उर्दू खबरे	गली गली सिम सिम	अदबी दुनिया (1, 3, 5) रचना संसार (2, 4)	ग्राफिक समाचार	मैं कुछ भी कर सकती हूँ (NREP)

दिन/ समय	06.30 PM - 07.00 PM	07.00 PM - 07.30 PM	07.30 PM - 08.00 PM	08.00 PM - 08.15 PM	08.15 PM - 08.30 PM	08.30 PM - 08.55 PM	08.55 PM - 09.00 PM	09.00 PM - 09.30 PM	09.30 PM - 09.55 PM	09.55 PM - 10.00 PM
सोमवार	समसामयिक चर्चा (सजीव)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	डी.डी यूपी आपके साथ (इ.एन.जी आधारित)		खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
मंगलवार	समसामयिक चर्चा (सजीव)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	चन्द्रमुखी (NREP)		खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
बुद्धवार	समसामयिक चर्चा (सजीव)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	द कमाण्ड फोर्स (NREP)		खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
बृहस्पति वार	समसामयिक चर्चा (सजीव)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	द कमाण्ड फोर्स (NREP)		खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
शुक्रवार	समसामयिक चर्चा (सजीव)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	नाद भेद (1,2,3,5) ये वतन है हमारा (4)	सुनीता (NREP)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
शनिवार	कथा सरिता (NREP)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	एक चीज ऐसी मिल गयी (प्रायोजित)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	विज्ञान से ध्यान की ओर	अलबेले हाथों का हुनर (NREP)	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना
रविवार	किड्स जोन (इन हाऊस)	समाचार	(प्रायोजित कार्य0)	उत्तराखण्ड समाचार	उर्दू खबरें	बातों-बातों में	खोये हुए व्यक्तियों की सूचना	वंस मोर		खोये हुए व्यक्तियों की सूचना